

**7.4.2 PROGRAM RELATED TO HARMONY AND PEACE IN THE SOCIETY
(SAMAJ HITAH)**

**PROGRAMMES/ AWARENESS CAMP FOR SPREADING THE MESSAGE OF
HARMONY AND PEACE IN THE SOCIETY BY PROF. (DR.) SADHVI
DEVPRIYA JI**

Sr.no	Title	Place	Date	Year
1	Rastriya karykariniBaithak	Uttarakhand	22 December	2021
2	Republic Day Program	Uttarakhand	26 January	2021
3	Yoga has manifolds benefits:-physical, mental, emotional and spiritual	Maharashtra	08 March	2022
4	Yoga and Spiritualism In the presence of Param Pujya Swamiji Maharaj about five thousand women attended in the yoga Camp and meeting	Maharashtra	10 March	2022
5	Yoga is best for spirituality About one thousand two hundered women attended in the meeting	Bihar	17 April	2022
6	Yoga for beginners About one thousand five hundered women attended in the meeting	Bihar South	18 April	2022
7	How yoga went from the spiritual to a physical practice About three thousand women attended in the meeting	Jharkhand	20 April	2022
8	Physical mental and	Delhi	22 May	2022

	spiritual benefits of yoga about five thousand women attended in the meeting			
9	Role of yoga in everyday life about two thousand women attended in the meeting	Himachal Pradesh	25 May	2022
10	Yoga works at the level of a body, mind, and energy About five thousand women attended in the meeting	Meerut	28 August	2022
11	The regular practice of yoga brings positive changes in the practitioner strong muscles, flexibility, patience and good health. We should be patient with yoga About five thousand women attended in the meeting	Uttarakhand	16 October	2022
12	Yoga is not only a form of exercise, but it is ancient wisdom to live a healthy, happy and peaceful life	Karnataka	28 October	2022
13	People have learned about the virtues of yoga and accepted it as exercise and meditation.	Karnataka	29 October	2022
14	Yoga works at the level of a body, mind and energy About five thousand women attended in the meeting	South Gujarat	26 November	2022
15	People generally think that yoga is a form of	North Gujarat	27 November	2022

exercise that involves stretching and bending the body part but yoga is more than just exercise			
---	--	--	--

**Rastriya karykarini Meeting at the University of Patanjali, Haridwar
(16-18 December, 2021)**





Gujarat Program (26-27 November 2022)

महिला पतंजलि योग समिति
गुजरात (राज्य)

अवधि: 26/11/22 दिनांक: 26/11/2022

श्रीमान्,
पवन प्रज्वल आचार्य डॉ. सारणी देवप्रिया डीपी जी
Dean/HOD/कुलपुस्तकालिका
पतंजलि युनिवर्सिटी,
इण्डियन

विषय :- महिला महासम्मेलन में आयोजी महिलायों की उपस्थिति स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदरणीय श्रीमान्, विषय विवेचन है कि महिला पतंजलि योग समिति गुजरात(राज्य) द्वारा 26/11/22 को राजकोट,गुजरात में एक महिला महासम्मेलन का कार्यक्रम बुकिंग किया गया है, जिसमें पवन प्रज्वल जी को आमंत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 3500 से अधिक महिलाओं के आने की सम्भावना है। अब आप से विनम्र विवेचन है कि इस कार्यक्रम में आप की महिलायों की उपस्थिति की स्वीकृति कार्यालय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक कार्यक्रम में आने की स्वीकृति देकर आप हमें कृतार्थ करोगी।

(Signature)
संजय आर्य
सहिला राज्य प्रवर्धनी, गुजरात (राज्य)

Address :- 32, Tripathi Plaza, N.H. 35, No. 15C, Panch Pump, Shyamgaur Chokadi, Ash Park, Vadod - 390007
Mob. : 9896327591 E-mail : sanjayprakash@gmail.com



Bihar North Program 2022



Invitation Letter



Appreciation Letter



Bihar South Program 2022



Invitation Letter



Appreciation Letter



Delhi Program 2022



Himachal Program 2022



Jharkhand Program 2022



Maharashtra East Program 2022



**HEALTH RELATED INTEGRATED YOGA CAMP FOR PROMOTION OF
YOGA, YAGYA AND CULTURE AT DIFFERENT STATES OF INDIA BY DR.
SWAMI PARMARTHDEV JI**

स्वामी डॉ. परमार्थदेव सहायक प्राध्यापक दर्शन विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार (मध्य, पश्चिम एवं दक्षिण भारत के राज्यों में मण्डल स्तरीय प्रवास विवरण)							
क्र.सं.	दिनांक व दिन	राज्य	मण्डल	जिला समितियाँ	वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं मण्डल स्तरीय बैठकों की संख्या	कुल कार्यक्रम	प्रतिभागी
1	02 से 06 अप्रैल, 2022	मध्य प्रदेश-पश्चिम	5	27	5 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 5 मण्डल स्तरीय बैठकें।	10	7500
2	07 से 11 अप्रैल, 2022	मध्य प्रदेश-पूर्व	5	25	5 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 5 मण्डल स्तरीय बैठकें।	10	8000
3	15 से 18 अप्रैल, 2022	दिल्ली		21	2 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 2 मण्डल स्तरीय बैठकें।	4	2500
4	28 से 31 अप्रैल, 2022	गुजरात-उत्तर	3	18	2 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 2 मण्डल स्तरीय बैठकें।	4	2500
5		गुजरात-दक्षिण	2	16	2 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 2 मण्डल स्तरीय बैठकें।	4	3500
6	04 से 09 मई, 2022	ओडिशा	10	30	6 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 6 मण्डल स्तरीय बैठकें।	12	8000
7	12 से 15 मई, 2022	गोवा	2	4	2 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 2 मण्डल स्तरीय बैठकें।	4	1000
8	16 से 18 मई, 2022	केरल	2	4	2 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 2 मण्डल स्तरीय बैठकें।	4	3500
9	20 से 25 मई, 2022	मध्य	2-2 जिला स्तरीय 6 वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 2-2 जिला स्तरीय 6 बैठकें।		12	4000	
10	28 से 30 मई, 2022	राजस्थान-पूर्व	4 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 4 मण्डल स्तरीय बैठकें।		8	4500	
11	31 मई से 2 जून, 2022	राजस्थान-पश्चिम	4 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 4 मण्डल स्तरीय बैठकें।		8	6500	
12	05 से 07 जून, 2022	राजस्थान	मानवीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर अनार्याधीय योग दिवस की तैयारी हेतु चित्तौड़गढ़ व जोधपुर में योग शिविर व कार्यकर्ता बैठक।		1	550	
13	08 से 12 जून, 2022	उड़ीसा	5	30	4 मण्डल स्तरीय वि.शुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर एवं 4 मण्डल स्तरीय बैठकें।	8	4500
14	13 जून, 2022	दिल्ली	राज्य कार्यकारिणी एवं पूर्ण कालिक कार्यकर्ता बैठक (केवल हरिद्वार से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भाई)।		1	350	
15	15 से 17 जून, 2022	बिहार	शिवलिंग सी.डी.डू. (सेना के जवानों हेतु योग शिविर)		1	2500	
16	18 से 21 जून, 2022	दिल्ली	आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लाल किले पर अनार्याधीय योग दिवस		1	5000	
Total						92	64400





पतंजलि योग समिति का एक दिवसीय निःशुल्क समन्वित शिविर रविवार को रायपुर। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के केन्द्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव का एक दिवसीय निःशुल्क शिविर अनुपम गार्डन में रविवार, 20 नवम्बर को आयोजित किया गया है। जिसमें आचार्य चंद्रमोहन, सचिन भाई प्रभारी युवा भारत हरिद्वार एवं संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय भी प्रमुख रूप से अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पतंजलि योग समिति के सह-राज्य प्रभारी योगाचार्य छबिराम साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी रायपुर के अनुपम गार्डन में एक दिवसीय निःशुल्क समन्वित (इन्टीग्रेटेड) योग शिविर का आयोजन रविवार को प्रातः 5.30 से 8 बजे के बीच किया गया है।



TOBACCO PREVENTION DAY 2022



AGRICULTURE AND GRAMODYOG TRAINING BY PATANJALI GRAMODYOG TRUST, HARIDWAR FOR THE STUDENTS OF THE FACULTY OF ANCIENT STUDIES ORGANISED HEALTH AWARENESS CAMP AT NEARBY THE UNIVERSITY CAMPUS







BLOOD DONATION BY THE STUDENTS OF FACULTY OF HUMANITIES AND ANCIENT STUDIES ON THE OCCASION OF JADI-BUTI DIWAS (PUJYA ACHARYA BALKRISHNA JI'S BIRTHDAY)



RALLY AGAINST DOMESTIC VIOLENCE ORGANIZED BY THE DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY (SEPTEMBER, 2017)





BODY (KAYA SHUDDHI)

DAILY YOGA ASANAS PRACTICE



CLEANSING TECHNIQUE



MIND (*CHITTA SHUDHHI*)

TRATAKA (EYE GAZING PRACTICE)



MEDITATION PRACTICE



UPANISHAD SWADHYAYA IN THE GUIDANCE OF A SAINT PUJYA SWAMI PARMARTHDEV JI



WORKSHOP ON EMOTIONAL WELL-BEING OF YOUTH IN LIGHT OF INDIAN TRADITIONAL KNOWLEDGE BY THE DEPTT. OF PSYCHOLOGY

सही राह दिखाते हैं योग और वेद : प्रो. महावीर पंतजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

आर्षि पिता नियोदक

इतिहास : पंतजलि विश्वविद्यालय में 'राष्ट्रीय भारतीय ज्ञान के प्रचार' में संविधानिक उन्मुख के साथ 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित है। पंतजलि विश्व विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम, यह-प्रस्तावित कार्यक्रम का आयोजन के लिए सलाहकार समिति का शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुभ की प्रारंभ की गई।

पुस्तक अतिथि श्रीधर च-वेदिकीय उदय सिन्हा ने 'आर्य-संस्कृति' को समझाने के लिए 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित किया। उद्यम उद्यम की पुस्तक 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित किया। उद्यम उद्यम की पुस्तक 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित किया। उद्यम उद्यम की पुस्तक 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित किया।



पंतजलि विश्व विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का वीडियो प्रसारण कराते अतिथि।

सांस्कृतिक जीवन के लिए योगाभ्यास जरूरी : प्रो. रूप किशोर

इतिहास : पंतजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन के लिए सलाहकार समिति का शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुभ की प्रारंभ की गई।

पुस्तक अतिथि श्रीधर च-वेदिकीय उदय सिन्हा ने 'आर्य-संस्कृति' को समझाने के लिए 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित किया। उद्यम उद्यम की पुस्तक 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित किया। उद्यम उद्यम की पुस्तक 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित किया।

युवा पीढ़ी सर्वप्रथम स्वयं को पहचाने: उदय सिन्हा

अतिथि / संकायक

कार्यशाला

- कार्यशाला में पुस्तक अतिथि श्रीधर च-वेदिकीय उदय सिन्हा की
- आर्य-संस्कृति का प्रसारण कराते अतिथि

पंतजलि विश्वविद्यालय में 'राष्ट्रीय भारतीय ज्ञान के प्रचार' में संविधानिक उन्मुख के साथ 'राष्ट्रीय विषय' का कार्यक्रम आयोजित है। पंतजलि विश्व विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम, यह-प्रस्तावित कार्यक्रम का आयोजन के लिए सलाहकार समिति का शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुभ की प्रारंभ की गई।




पंतजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का वीडियो प्रसारण कराते अतिथि।

PRANA (PRANA SHUDDHI) AND SENSES (INDRIYA SHUDDHI)



YAGYA KARMA



ADVANCE TRAINING ON PRANIC HEALING



SATVIK FOOD

